



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 286 राँची, सोमवार,

19 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

21 अप्रैल, 2017 ई०।

झारखण्ड पत्र संख्या-13/सी०-102/2017-2284/

प्रेषक,

अर्चना मेहता,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

विषय:-श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० (2009), पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि श्री संजीव कुमार, भा०पु०से०, (2009), पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, रांची ने विभागीय अधिसूचना सं०-22, दिनांक 3 जनवरी, 2017 के आलोक में दिनांक 5 जनवरी, 2017 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावा के पद से विमुक्त होकर दिनांक 9 जनवरी, 2017 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं०- 623, दिनांक 30 जनवरी, 2017 के आलोक में इन्होंने दिनांक-30 जनवरी, 2017 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल) पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, रांची का पदभार ग्रहण किया। इस बीच श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० दिनांक 6 जनवरी, 2017 से 30 जनवरी, 2017 तक प्रभार रहित अवधि में रहे जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० (2009) के दिनांक 6 जनवरी, 2017 से 30 जनवरी, 2017 तक की प्रभार रहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 के आलोक में निम्नांकित रूप से कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

- (i) दिनांक 6 जनवरी, 2017 से 8 जनवरी, 2017-पदग्रहण काल।
 - (ii) दिनांक 9 जनवरी, 2017 से 30 जनवरी, 2017-अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि।
3. श्री संजीव कुमार, भा०पु०से० (2009) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के उप सचिव।
